

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 22—नवम्बर 28, 2014 (अग्रहायण 1, 1936)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 22—NOVEMBER 28, 2014 (AGRAHAYANA 1, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2014

सं. ए-19011/02/2013-प्रशा.-III (वि.का.)—विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती, वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2000 के नियम 8 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 22 में यथा निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु होने पर, डॉ. सत्य देव सिंह, सदस्य, विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण दिनांक 4 नवम्बर, 2014 के अपराह्न को अपने पद का कार्यभार छोड़ देंगे।

डी. चौधरी, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

सं. आई-18011/10/2014-आई.पी.एस.-4—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली 1954 के नियम-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा के झारखण्ड संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे उल्लिखित

तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते हैं।

क्रम सं.	आई.पी.एस. परिवीक्षाधियों का नाम	तिथि
1.	श्री पटेल मयूर कनैया लाल, आई.पी.एस. (झारखण्ड : 2007)	28.08.2010
2.	श्री एम. तामिल वानन, आई.पी.एस. (झारखण्ड : 2008)	22.12.2010
3.	अजय लिण्डा, आई.पी.एस. (झारखण्ड : 2008)	22.12.2010
4.	इन्द्रजीत महत्था, आई.पी.एस. (झारखण्ड : 2009)	21.12.2011

अरविन्द गौड़, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2014

सं. 24005/125/1999—आईपीएस-II—राष्ट्रपति यह निदेश देते हैं कि गुजरात (बैच-1996) के अखिल भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य श्री हिमांशु भट्ट को अखिल भारतीय पुलिस सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 7(2) (ए) के अनुसार, दिनांक 15.08.2005 से भारतीय पुलिस सेवा से त्याग-पत्र दिया हुआ माना जाता है।

जी. सी. यादव, उप सचिव (पुलिस)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर 2014

सं. ए-32015/2/2014—प्रशा. IV (संवर्ग)—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद पर वरिष्ठता कोटा हेतु जोनिंग स्कीम के अन्तर्गत नियमित आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को चयन सूची वर्ष के लिए उनके नामों के सम्मुख दी गई तारीख से ग्रेड वेतन 4,800/- रु. के साथ वेतन बैंड-2 में नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	चयन सूची वर्ष	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री कन्हैया लाल	2012	26.05.2014
2.	श्री रोशन लाल	2012 (बढ़ाया गया)	16.09.2014

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

सं. 6/1/2014—एफबी. II—राष्ट्रपति श्री सुभाष चन्द्र गर्ग को विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान वाशिंगटन डी. सी., संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में राजदूत के वैयक्तिक रैंक में भारत सरकार के प्रधान रजिडेंट प्रतिनिधि के रूप में नामित करते हैं।

राजेश खुल्लर, संयुक्त सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2014

सं. ए-19011/04/2012—स्थापना—राष्ट्रपति, श्री टी.पी.एन. सिंह, अवर सचिव (तदर्थ) को केन्द्रीय सचिवालय सेवा, चयन सूची 2012 के नियमित आधार पर रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. प्रवीण, उप सचिव

दिनांक 8 अक्टूबर 2014

सं. ए-19011/3/2014-स्थापना—राष्ट्रपति, श्री राम प्रभाकर, स्थाई अनुभाग अधिकारी (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) को रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग में पे बैंड-3 में वेतनमान रु. 15,600—39,100/- ग्रेड पे रु. 6,600/- में 18 सितम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से अवर सचिव (तदर्थ) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/11/2014-सीएस-I (यू) दिनांक 15 सितम्बर, 2014 के अंतर्गत दी गई शर्तों एवं विनियमों के अधीन होंगी।

डी. प्रवीण, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 2014

सं. ए-19011/02/2014-स्थापना—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 31.03.2014 के पत्र संख्या 1/312(40)/2013-आर.- II के अंतर्गत सिफारिशों के अनुसार श्री रोहित मिश्रा को रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग में पे बैंड-3 रु. 15,600—39,100/- ग्रेड पे रु. 5,400/- में सहायक औद्योगिक सलाहकार के पद पर 28.08.2014 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

टी. पी. एन. सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2014

सं. (ए-19011/4/2014-स्थापना)—राष्ट्रपति, श्री सुरजीत कुमार चौधरी, भा.प्र.से. (तमिलनाडु : 80) को रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राम प्रभाकर, अवर सचिव

दिनांक 13 अक्टूबर 2014

सं. ए-19011/5/2014-स्थापना—राष्ट्रपति, श्री प्रेम प्रकाश, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड- I अधिकारी (अवर सचिव) को रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग में पे बैंड-3 में वेतनमान रु. 15,600—39,100/- ग्रेड पे रु. 7,600/- में 01 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से उप सचिव (तदर्थ) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 4/2/2014-सीएस I (डी) दिनांक 19 सितम्बर, 2014 के अंतर्गत दी गई शर्तों एवं विनियमों के अधीन होंगी।

राम प्रभाकर, अवर सचिव

दिनांक 14 अक्टूबर 2014

सं. ए-38011/5/2014-स्थापना—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के सचिव, श्री इन्द्रजीत पाल, भा.प्र.से. (आंध्र प्रदेश : 1977), दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राम प्रभाकर, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

सं. पी.एफ. (2877)/स्था. 1—खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी, श्री लाल चन्द शर्मा द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए मूल नियम 56(के) के अंतर्गत दिए गए उनके दिनांक 07.08.2014 के नोटिस को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, श्री लाल चन्द शर्मा, अनुभाग अधिकारी स्वेच्छा से सरकारी सेवा से 08.11.2014 (पूर्वाह्न) से सेवानिवृत्त होंगे।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

सं. प्र.वै.स./02(01) 2011-प्रशा.—राष्ट्रपति, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में वैज्ञानिक 'जी' /सलाहकार के पद पर कार्यान्वित डॉ. डी. योगेश्वर राव, वैज्ञानिक 'जी', सीएसआईआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान को वेतनमान रु. 37,400—67,000/- और पदक्रम वेतन रु. 10,000/-, पर उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 02.10.2014 के बाद से 28.02.2015 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो बढ़ाते हैं।

यश पाल धेवाल, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

सं. पृविमं./17/05/2009-स्था.—राष्ट्रपति, डॉ. ए. पी. पांडे को दिनांक 21.10.2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सीधी भर्ती आधार पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी भवन, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003 में 37,400—67,000/- + 8,700/- रु. (ग्रेड पे) के वेतनमान में वैज्ञानिक 'ई' (समूह 'क' राजपत्रित, वैज्ञानिक) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. डॉ. ए. पी. पांडे, वैज्ञानिक 'ई' को दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्टॉफ सदस्य संख्या में शामिल किया जाता है।

कैलाश चंद, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(आयुष विभाग)

नई दिल्ली-110023, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

सं. ए-19011/9/2010-ई-II (आयुष)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री राजेन्द्र कुमार सूद; निदेशक, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2014 के अपराह्न से केन्द्रीय सरकार सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

चंद्र शेखर, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 3rd November 2014

No. A-19011/02/2013-Admn.III(LA)—On attaining the age of retirement as laid down in Section 22 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 read with Rule 8 of the Appellate Tribunal for Foreign Exchange (Recruitment, Salary and Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2000, Dr. Satya Deo Singh, Member, Appellate Tribunal for Foreign Exchange shall cease to hold office with effect from the afternoon of 4th November, 2014.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 31st October 2014

No. I-18011/08/2014-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Jharkhand with effect from dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the IPS Probationers	Date of confirmation in IPS
1.	S/Shri Patel Mayur Kanaiya Lal, IPS (JH-2007)	28.08.2010
2.	M. Tamil Vanan, IPS (JH-2008)	22.12.2010
3.	Ajay Linda, IPS (JH-2008)	22.12.2010
4.	Indrajeet Mahatha, IPS (JH-2009)	21.12.2011

ARVIND GAUR, Under Secy.

New Delhi-1, the 5th November 2014

No. 24005/125/1999-IPS-II—The President is pleased to direct that Shri Himanshu Bhatt, a member of the Indian Police Service, borne on the Cadre of Gujarat (Batch-1996) is deemed to have resigned from the Indian Police Service with effect from 15.08.2005, in terms of Rule 7 (2) (a) of the All India Service (Leave) Rules, 1955.

G. C. YADAV, Dy. Secy. (Police)

MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 17th October 2014

No. A-32015/2/2014-Ad.IV(Cadre)—The President is pleased to appoint the following officials to the grade of Private Secretary (Group 'B' Gazetted) of Central Secretariat Stenographers Service on regular basis under the Zoning Scheme for Seniority Quota in the Pay Band-2 with Grade Pay of Rs. 4,800/- for the Select List Year and with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Select List Year	Date of Appointment
1.	Shri Kanhiya Lal	2012	26.05.2014
2.	Shri Roshan Lal	2012 (Extended)	16.09.2014

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 30th October 2014

No. 6/1/2014-FB.II—The President is pleased to designate Shri Subhah Chandra Garg as Government of India's Principal Resident Representative with the personal rank of Ambassador, during his tenure as Executive Director for India, Bangladesh, Bhutan and Sri Lanka in the World Bank, at the Bank's Headquarters at Washington DC, in the United States of America.

RAJESH KHULLAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 6th August 2014

No. A-19011/4/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri T. P. N. Singh, Under Secretary (Ad-hoc) as Under Secretary on regular basis against the Select List 2012 of the Central Secretariat Service, in the Department of Chemicals & Petrochemicals.

D. PRAVEEN, Dy. Secy.

The 8th October 2014

No. A-19011/3/2014-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ram Prabhakar regular Section Officer of Central Secretariat Service as Under Secretary (Ad-hoc) in the Department of Chemicals and Petrochemicals in PB-3, Rs. 15-600—39,100/- (Grade Pay Rs. 6,660/-) w.e.f. forenoon of 18th September, 2014.

2. The aforesaid ad-hoc appointment is subject to the terms and conditions as enunciated in Department of Personnel & Training Order No. 5/11/2014-C.S.I(U) dated 15th September, 2014.

D. PRAVEEN, Dy. Secy.

New Delhi, the 3rd September 2014

No. A-19011/2/2014-Estt.—In accordance with the recommendation of Union Public Service Commission vide letter No. 1/312(40)/2013-R.II dated 31.03.2014, the President is pleased to appoint Shri Rohit Misra as Assistant Industrial Advisor in the Department of Chemicals & Petrochemicals in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/-, Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 28.08.2014.

T. P. N. SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 1st October 2014

No. A-19011/4/2014-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Surjit Kumar Chaudhary, IAS (TN: 80) as Secretary, Department of Chemicals & Petrochemicals in the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. the forenoon of 01st October, 2014.

RAM PRABHAKAR, Under Secy.

The 13th October 2014

No. A-19011/5/2014-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Prem Parkash, Grade-I Officer of Central Secretariat

Service (Under Secretary) as Deputy Secretary (ad-hoc) in the Department of Chemicals and Petrochemicals in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- (Grade Pay Rs. 7,600/-) w.e.f. forenoon of 1st October, 2014.

2. The aforesaid ad-hoc appointment is subject to the conditions as enunciated in Department of Personnel & Training's Order No. 4/2/2014-CS-I(D) dated 19th September, 2014.

RAM PRABHAKAR, Under Secy.

—
The 14th October 2014

No. A-38011/5/2014-Estt.—Shri Indrajit Pal, IAS (AP: 1977), Secretary, Department of Chemicals & Petrochemicals in the Ministry of Chemicals & Fertilizers has retired from the Government Service on attaining the age of superannuation w.e.f. 30th September, 2014.

RAM PRABHAKAR, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 30th October 2014

No. PF(2877)/E.I.—The President is pleased to accept the notice dated 07.08.2014 given by Shri Lal Chand Sharma, Section Officer of Central Secretariat Services (CSS) of the Department of Food & Public Distribution, under FR 56(k) for voluntary retirement from Government Service. Accordingly, Shri Lal Chand Sharma, Section Officer will stand retired voluntarily from Government Service on the forenoon of 08.11.2014.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

OFFICE OF THE PRINCIPAL SCIENTIFIC ADVISER TO THE GOVERNMENT OF INDIA

New Delhi-110011, the 15th October 2014

No. Prn.SA/02(01)2011-Admn.—The President is pleased to extend the deputation of Dr. D. Yogeswara Rao, Scientist 'G' in the CSIR-Indian Institute of Chemical Technology as Scientist 'G'/Adviser in the Office of Principal Scientific Adviser to the Government of India in the scale of pay of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/- beyond 02.10.2014 till 28.02.2015 or until further orders, whichever is earlier.

YASH PAUL DHEWAL, Under Secy.

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-110003, the 31st October 2014

No. MoES/17/05/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. A. P. Pandey as Scientist 'E' (Group 'A' Gazetted, Scientist) in the Ministry of Earth Sciences, Prithvi Bhavan, Lodi Road, New Delhi-110003 in the Scale of Pay of PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + GP 8,700/- w.e.f. the forenoon of 21.10.2014 on direct recruitment basis until further orders.

2. Dr. A. P. Pandey, Scientist 'E' has been taken on strength of Minsitry of Earth Sciences w.e.f. the forenoon of 21st October, 2014.

KAILASH CHAND, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF AYURVEDA YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY)

New Delhi-110023, the 31st October 2014

No. A-19011/9/2010-E-II(AYUSH)—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Rajinder Kumar Sood, Director, Department of Ayurveda Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi, stands retired from the Central Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2014.

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in